



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 47] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 20—नवम्बर 26, 2010 (कार्तिक 29, 1932)

No. 47] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 20—NOVEMBER 26, 2010 (KARTIKA 29, 1932)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग I—खण्ड 2

## [PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

उपराष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 29 अक्टूबर 2010

सं. 03/04/79--प्रशासन--राष्ट्रपति जी, श्री पवन सिंह बिष्ट को उपराष्ट्रपति सचिवालय में अनुभाग अधिकारी के पद पर वेतन बैंड-2 (9,300--34,800/-) रु. + ग्रेड वेतन रुपए 4,800/- रु. में दिनांक 27 अक्टूबर, 2010 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

अशोक दीवान, निदेशक

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 1 नवम्बर 2010

सं. आरएस./20/1/2010/103-कार्मिक--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर, संयुक्त निदेशक श्री सज्जन कुमार चुगानी 31 अक्टूबर, 2010 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए।

एस. रंगराजन, उप निदेशक

सं. आरएस./20/1/2010/104-कार्मिक--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर, संयुक्त निदेशक (पीएसएस) श्री बी. के. पंत 31 अक्टूबर, 2010 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए।

एस. रंगराजन, उप निदेशक

सं. आरएस./3/1/2010/107-कार्मिक--राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में कार्यरत सहायक निदेशक, श्री संजीव चन्द्रा को 01 नवम्बर, 2010 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में 15,600--39,100/- रुपए के वेतन बैंड-3 + 7,600/- रुपए के ग्रेड वेतन और नियमों के अधीन स्वीकार्य सामान्य भत्तों के साथ उप निदेशक के ग्रेड में नियमित आधार पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

2. उपर्युक्त नियुक्ति रिट याचिका सं. 3025/88 के अंतिम निपटारे के समय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों के अधधीन होगी।

एस. रंगराजन, उप निदेशक

## मंत्रिमंडल सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 29 सितम्बर 2010

सं. ए-19011/04/2010-प्रशा.-I--राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 21 सितम्बर, 2010 के कार्यालय आदेश सं. 3/4/2010-सीएस.-I(डी) द्वारा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के वरिष्ठ सेलेक्शन ग्रेड (निदेशक) के लिए वर्ष 2010 की पूरक चुनिंदा सूची में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सेलेक्शन ग्रेड (उप सचिव) के अधिकारी, श्री के. वी. एस. राव का नाम शामिल कर लिए जाने के परिणामस्वरूप, उन्हें 21 सितम्बर, 2010 (पूर्वाह्न) से नियमित आधार पर मंत्रिमंडल सचिवालय में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के वरिष्ठ सेलेक्शन ग्रेड में निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. श्री राव मंत्रिमंडल सचिवालय में ही तैनात रहेंगे।

के. जे. सिबिचन, अवर सचिव

दिनांक 11 अक्टूबर 2010

सं. ए-19012/03/2010-प्रशा.-I--राष्ट्रपति, श्री दिवाकर नाथ मिश्र, भा.प्र.से. (ए.एम. : 2000) को 04 अक्टूबर, 2010 के अपराह्न से चार वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर मंत्रिमंडल सचिवालय में उप सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

के. जे. सिबिचन, अवर सचिव

## योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 28 अक्टूबर 2010

सं. एफ-6 (2082)/2009-प्रशा.-I--आर्थिक मामले विभाग के फाइल सं. 13016/3/2010-आईईएस से जारी आदेश सं. टी-21/2010 दिनांक 15.07.2010 के अनुसरण में श्री टी. वी. भावदास आईईएस के एनएफएसजी अधिकारी और निदेशक योजना आयोग को कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (योजना आयोग) के क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, मुंबई में कार्यभार ग्रहण करने के लिए 29.10.2010 (अपराह्न) से योजना आयोग से कार्यमुक्त किया जाता है।

जी. राजीव, अवर सचिव

सं. एफ-6 (2126)/2010-प्रशा.-I--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने के पश्चात् श्री आर. सी. श्रीनिवासन, आईईएस, प्रधान सलाहकार, योजना आयोग, 31 अक्टूबर, 2010 से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होते हैं।

जी. राजीव, अवर सचिव

## विधि एवं न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 15 अक्टूबर 2010

सं. ए-12025/1/2007-प्रशा.-I (वि.वि.)--श्री के. वी. कुमार, सहायक विधायी परामर्शी जिन्हें इस विभाग की दिनांक 22 जुलाई, 2010 की समसंख्यक अधिसूचना के द्वारा दिनांक 20 अप्रैल, 2010 की पूर्वाह्न से विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग में तदर्थ आधार पर उप

विधायी परामर्शी (भारतीय विधि सेवा का ग्रेड-III) के पद पर स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया था, को दिनांक 11 अक्टूबर, 2010 की पूर्वाह्न से सहायक विधायी परामर्शी के उनके मूल पद पर प्रत्यावर्तित किया जाता है।

एम. आर. बीर, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 20 अक्टूबर 2010

सं. ए-12025(i)/1/2007-प्रशा.-I (वि.वि.)--श्री एन. आर. बट्ट, उप विधायी परामर्शी जिन्हें दिनांक 21 जुलाई, 2010 की अधिसूचना के द्वारा इस विभाग में तदर्थ आधार पर अपर विधायी परामर्शी (भारतीय विधि सेवा का ग्रेड-II) के पद पर स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया था, को दिनांक 20 अक्टूबर, 2010 की अपराह्न से उप विधायी परामर्शी के पद पर प्रत्यावर्तित किया जाता है।

वी. जी. मंगल, अवर सचिव

## गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 28 अक्टूबर 2010

सं. 14046/16/2010-यू टी एस-II--राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, दमण एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली पुलिस सेवा (दानिप्स) के प्रविष्टि ग्रेड अधिकारियों के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव (संघ राज्य क्षेत्र) ने, दानिप्स की प्रविष्टि ग्रेड अधिकारी श्रीमती शशि बाला पुंज (जन्म की तारीख : 14.03.1952) के दिनांक 17 मई, 2010 के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के नोटिस को स्वीकार कर लिया है तथा उन्हें सी सी एस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 48 (1) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त होने की अनुमति प्रदान कर दी है।

व्योमेश पंत, अनुभाग अधिकारी

## उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 1 नवम्बर 2010

सं. 13/90/10-प्रशा.--राष्ट्रपति, श्री डी. राय चौधरी को दिनांक 18.10.2010 (पूर्वाह्न) से उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में कार्यपालक अभियंता (सिविल) के पद पर नियुक्त करते हैं।

अशोलि चलाई, निदेशक

## कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 27 अक्टूबर 2010

सं. 19011/6/2010-प्रशा.--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 03 सितम्बर, 2010 के आदेश सं. 5/3/2010-के.से.-I (यू) द्वारा अवर सचिव (गेड-1) में तदर्थ आधार पर पदोन्नत होने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति, श्री दर्शन कुमार सोलंकी को दिनांक 09.09.2010 (अपराह्न) से केन्द्रीय सचिवालय सेवा में अवर सचिव (तदर्थ) के पद पर नियुक्त करते हैं।

वी. के. वधवा, अवर सचिव

दिनांक 2 नवम्बर 2010

सं. 19011/4/2007-प्रशासन-I--केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के वरिष्ठ चयन ग्रेड (निदेशक) हेतु वर्ष 2010 की चयन सूची में उनका नाम शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति, श्री करण सिंह चिबब को के.स.से. में निदेशक के पद पर, पे बैंड-4 (पीबी-4) रुपए 37,400--67,000/- + ग्रेड पे रुपए 8,700/- में दिनांक 21.09.2010 (पूर्वाह्न) से पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में नियुक्त करते हैं।

वी. के. वाधवा, अवर सचिव

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 20 अक्टूबर 2010

सं. ए-19014/07/2010-प्र.सु. (प्रशा.-I)--राष्ट्रपति, श्री हेमन्त वर्मा को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में दिनांक 20.09.2010 की पूर्वाह्न से अगले आदेश तक तदर्थ आधार पर अवर सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

बी. के. सिंह, अवर सचिव

सं. ए-19014/08/2010-प्र.सु. (प्रशा.-I)--राष्ट्रपति, श्री एस. के. पाणि को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में दिनांक 09.09.2010 की अपराह्न से अगले आदेश तक तदर्थ आधार पर अवर सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

बी. के. सिंह, अवर सचिव

सं. ए-19014/05/2010-प्र.सु. (प्रशा.-I)--राष्ट्रपति, सुश्री सुनीता सक्सेना को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में दिनांक 09.09.2010 की पूर्वाह्न से अगले आदेश तक तदर्थ आधार पर अवर सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

बी. के. सिंह, अवर सचिव

सं. ए-19014/06/2010-प्र.सु. (प्रशा.-I)--राष्ट्रपति, श्री वदाली रामबाबू को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में दिनांक 09.09.2010 की पूर्वाह्न से अगले आदेश तक तदर्थ आधार पर अवर सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

बी. के. सिंह, अवर सचिव

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 23 सितम्बर 2010

सं. 91 : (फा. सं. ए-19012/03/2008-प्रशा.-I)--केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सी एस एस) की वर्ष 2010 की अनुपूरक चयन सूची के वरिष्ठ चयन ग्रेड (निदेशक) में नाम शामिल किए जाने के फलस्वरूप, तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 21 सितम्बर, 2010 के आदेश

सं. 3/4/2010-सी एस-1(डी) के अनुसरण में भारत के राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी और वर्तमान में उप सचिव के रूप में कार्यरत श्री के. एम. ब्रह्मे को दिनांक 22.09.2010 (पूर्वाह्न) से तथा अगले आदेशों तक, इस विभाग में नियमित आधार पर निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

सं. 92 : (फा. सं. ए-19012/03/2007-प्रशा.-I)--केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सी एस एस) की वर्ष 2010 की अनुपूरक चयन सूची के वरिष्ठ चयन ग्रेड (निदेशक) में नाम शामिल किए जाने के फलस्वरूप, तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 21 सितम्बर, 2010 के आदेश सं. 3/4/2010-सी एस-1(डी) के अनुसरण में भारत के राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी और वर्तमान में उप सचिव के रूप में कार्यरत श्री रवीश सानेहवाल को दिनांक 22.09.2010 (पूर्वाह्न) से तथा अगले आदेशों तक, इस विभाग में नियमित आधार पर निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

सं. 93 : (फा. सं. ए-19012/10/2007-प्रशा. I)--केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सी एस एस) की वर्ष 2010 की अनुपूरक चयन सूची के वरिष्ठ चयन ग्रेड (निदेशक) में नाम शामिल किये जाने के फलस्वरूप तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 21 सितम्बर, 2010 के आदेश सं. 3/4/2010-सी एस-1(डी) के अनुसरण में भारत के राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी और वर्तमान में उप सचिव के रूप में कार्यरत श्री एल. आर. अग्रवाल को दिनांक 21.09.2010 (पूर्वाह्न) से तथा अगले आदेशों तक, इस विभाग में नियमित आधार पर निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

दिनांक 1 अक्टूबर 2010

सं. 95 : (फा. सं. ए-38013/13/2010-प्रशा. I)--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर राजस्व विभाग में अनुभाग अधिकारी के रूप में तैनात केन्द्रीय सचिवालय सेवा की अधिकारी श्रीमती मंजीत एन.पी.एस. बेदी, 30 सितम्बर, 2010 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गयी।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

सं. 96 : (फा. सं. ए-38013/15/2010-प्रशा. I)--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर राजस्व विभाग में अनुभाग अधिकारी के रूप में तैनात केन्द्रीय सचिवालय सेवा की अधिकारी श्री प्रमोद कुमार मिश्रा, 30 सितम्बर, 2010 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गये।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

दिनांक 6 अक्टूबर 2010

सं. 97 : (फा. सं. ए-19012/14/2010-प्रशा. I)--वर्ष 2010 (भाग) के केन्द्रीय सचिवालय सेवा की सेलेक्शन ग्रेड (उप सचिव) की चयन सूची में नाम शामिल किये जाने के फलस्वरूप और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 6 सितम्बर, 2010 के कार्यालय आदेश सं. 4/2/2010-सी एस-1(डी) के अनुसरण में भारत के राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी श्री अनिल उनियाल को दिनांक 09.09.2010 (अपराहन) से और अगले आदेशों तक इस विभाग में नियमित आधार पर उप सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 25 अक्टूबर 2010

भारतीय सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्थापना

सं. 41/2010 (फा. सं. ए-38012/24/2010-प्रशा. II)--राष्ट्रपति, सी सी एस (पेंशन) नियमावली के अंतर्गत सरकारी सेवा से निम्नलिखित अधिकारियों के संबंध में उनके नाम के आगे उल्लिखित तिथियों से स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति के नोटिस को स्वीकार करते हैं :--

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति की तिथि
	सर्वश्री	
1.	जी. वी. नाईक	28.10.2010 (अपराहन)
2.	ए. पी. वर्मा	27.10.2010 (अपराहन)
3.	आर. के. जैन	26.10.2010 (पूर्वाहन)
4.	एम. के. गुप्ता	28.10.2010 (अपराहन)

आर. सानेहवाल, निदेशक

दिनांक 26 अक्टूबर 2010

सं. 42/2010 (फा. सं. ए-38012/17/2008-प्रशा. II)--राष्ट्रपति, श्री गोपाल सिंह पुरोहित (आई आर एस : सी एंड सी ई : 1996), उपायुक्त, प्रचार एवं जन संपर्क निदेशालय, सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, नई दिल्ली की एफ आर 56(ट) के अंतर्गत दिनांक 12.5.2009 (पूर्वाहन) से सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति के नोटिस को स्वीकार करते हैं।

आर. सानेहवाल, निदेशक

सं. 43/2010 (फा. सं. ए-38012/23/2010-प्रशा. II)--राष्ट्रपति, श्री सतीश चन्द्र तिवारी, सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, जयपुर की एफ आर 56(ट) के अंतर्गत दिनांक 28.10.2010 (पूर्वाहन) से सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति के नोटिस को स्वीकार करते हैं।

आर. सानेहवाल, निदेशक

सं. 44/2010 (फा. सं. ए-39012/08/2010-प्रशा. II)--राष्ट्रपति, आई आर एस (सी एंड सी ई), के 61वें बैच के परिवीक्षार्थी सुश्री सासवती डे, सर्वश्री मोहम्मद युसूफ कुरेशी, निर्लिप्त राय, कौशलेन्द्र

विक्रम सिंह और चन्द्र शेखर सिंह के दिनांक 29.8.2010 (अपराहन) से भारतीय राजस्व सेवा से तकनीकी त्याग-पत्र को स्वीकार करते हैं।

आर. सानेहवाल, निदेशक

व्यय विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 29 अक्टूबर 2010

सं. पी.एफ.जी. (2226)/प्रशा. I/2010--वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा (राजभाषा) संवर्ग के संयुक्त निदेशक (रा.भा.), श्री डी. डी. तिवारी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31 अक्टूबर, 2010 के अपराहन से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

2. इसी तारीख से उनका नाम विभाग की नामावली से काट जाता है।

एस. कृष्णामूर्ति, अवर सचिव

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 29 अक्टूबर 2010

सं. पीएफजी (986)/10-प्रशा. I--राष्ट्रपति, कारपोरेट कार्य मंत्रालय में श्री कमला कान्ता नाथ, आईएसएस (2000), को दिनांक 28 अक्टूबर, 2010 की पूर्वाहन से 27 अक्टूबर, 2014 तक चार वर्षों की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, उप सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

जे. एस. गुप्ता, अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 2 नवम्बर 2010

सं. ए-12022/2/2006-ई-IV--राष्ट्रपति द्वारा श्री जी. कमलावर्धन राव, भा.प्र.से. (केरल : 90) को दिनांक 20.9.2010 के पूर्वाहन से दिनांक 20.09.2012 तक की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, 37,400--67,000/- रुपये (पीबी-4) के वेतन बैंड + 10,000/- रुपये के ग्रेड वेतन में वाणिज्य विभाग के अधीन तम्बाकू बोर्ड, गुण्टूर में अध्यक्ष (संयुक्त सचिव स्तर) के पद पर नियुक्त किया जाता है।

के. के. फुल्ल, अवर सचिव

औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 29 अक्टूबर 2010

सं. ए-12023/1/2010-स्थापना-I--राष्ट्रपति, राजभाषा संवर्ग में नियमित वरिष्ठ अनुवादक सुश्री दीपा उपाध्याय को औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में 26.10.2010 से एक वर्ष की अवधि के लिए या तैनाती के लिए नियमित सहायक निदेशक (राजभाषा) के उपलब्ध होने तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले होगा, तदर्थ आधार पर सहायक निदेशक (राजभाषा) के रूप में पीबी-3, ग्रेड पे 5,400/- रुपये में नियुक्त करते हैं।

2. उक्त नियुक्ति का आदेश पूर्णतः तदर्थ आधार पर दिया गया है और इससे अधिकारी को उक्त ग्रेड पर अनिश्चितकाल तक बने रहने अथवा वरिष्ठता का दावा करने अथवा उच्च ग्रेड पर पदोन्नति हेतु दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

पी. भारद्वाज, अवर सचिव

सं. ए-45011/1/2010-स्थापना-I-- राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा. सं. 5(21)/2010-सीएस-II, दिनांक 30.6.2010 के अनुसरण में, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के निम्नलिखित नियमित समूह 'ग' आशुलिपिकों को उनके नामों के आगे दर्शाई गई तारीख से तदर्थ आधार पर 31.12.2010 तक या नियमित आधार पर उक्त पदों के भरे जाने तक अथवा अगले आदेशों तक जो भी पहले होगा पूर्णतः तदर्थ आधार पर औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, संवर्ग में आशुलिपिक समूह 'क' और 'ख' (विलयित) के रूप में (पे बैंड-2, रु. 9,300--34,800/- + ग्रेड पे 4,800/- रुपये में नियुक्त करते हैं:-

क्र. सं.	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का.ज्ञा. में क्र.सं.	नाम	निजी सचिव (तदर्थ) के रूप में नियुक्ति की तिथि	तैनाती
1.	39	श्रीमती सुरिंदर जीत कौर आनन्द	1.10.2010 (पूर्वाह्न)	लोक उद्यम विभाग
2.	73	श्री के. ई. मोहनन	24.08.2010 (पूर्वाह्न)	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग

2. समूह 'क' और 'ख' (विलयित) निजी सचिव के पद पर उक्त अधिकारियों की पदोन्नति पूर्णतः तदर्थ आधार पर की गई है और इससे अधिकारी को उक्त पद पर अनिश्चितकाल तक बने रहने अथवा आशुलिपिक समूह 'क' और 'ख' (विलयित) के पद में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

पी. भारद्वाज, अवर सचिव

सं. ए-19012/1055/1997-स्थापना-I-- अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने के फलस्वरूप, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के नियमित अनुभाग अधिकारी (केन्द्रीय सचिवालय सेवा) (एसएल-2003), श्री एस. सी. सक्सेना, 31 अक्टूबर, 2010 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

पी. भारद्वाज, अवर सचिव

सं. ए-19012/1247/2007-स्थापना-I-- अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने के फलस्वरूप, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के कार्यवाहक अनुभाग अधिकारी (सहायक सीएसएल सं. 200/1992) के रूप में कार्यरत श्री जुगल किशोर, 31 अक्टूबर, 2010 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

पी. भारद्वाज, अवर सचिव

वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 12 अक्टूबर 2010

सं. 21/2010 [ए-1/1/2008-निफ्ट-अनु. (पीटी)]--सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली में अपर सचिव के रूप में नियुक्ति हो जाने पर श्री राजीव टकरू आईएस (जीजे : 79) को 13 अक्टूबर, 2010 के पूर्वाह्न से राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, वस्त्र मंत्रालय, महानिदेशक के पद से कार्यमुक्त किया जाता है।

इंद्रजीत सिंह, निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 8 जून 2010

सं. 13/2010 (ए-12022/10/2009-स्था.)--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 26 मई 2010 के आदेश सं 5/3/2010-सीएस-I(यू) के अनुसरण में रक्षा मंत्रालय संवर्ग के अनुभाग अधिकारी श्री के. के. मोहनदास को 3 जून, 2010 के अपराह्न से वस्त्र मंत्रालय में तदर्थ आधार पर सीएसएस के ग्रेड-1 में (अवर सचिव) नियुक्त करते हैं।

बलबीर सिंह, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 3 नवम्बर 2010

सं. 4/10/2010/जूट--राष्ट्रपति, श्रीमती आरती कंवर, आईएस (गुजरात : 2001), को दिनांक 28 सितम्बर, 2010 के पूर्वाह्न से चार वर्षों की अवधि अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, पटसन आयुक्त का कार्यालय, कोलकाता में उप सचिव स्तर के उप पटसन आयुक्त के रूप में नियुक्त करते हैं।

बृज कुमार, अवर सचिव

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

नई दिल्ली-110049, दिनांक 29 अक्टूबर 2010

सं. ए-42013/1/2000-प्रशा.--दिनांक 30.01.2009 के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा. सं. 4/9/2008-सीएस-I (डी) के तहत सेवा (उप सचिव) के चयन ग्रेड में नियुक्ति के लिए केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) की अधिकारी चयन सूची वर्ष 2006 में उनके नाम सम्मिलित किए जाने के परिणामस्वरूप और दिनांक 13.02.2009 के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा. सं. 4/12/2001-सीएस-I (डी) के अनुरूप राष्ट्रपति ने इस मंत्रालय के निम्नलिखित केन्द्रीय सचिवालय सेवा अधिकारियों को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार नियमित आधार पर उप सचिव के पद पर नियुक्त किया है :-

क्र. सं.	नाम	सीएसएस संख्या और चयन सूची वर्ष
1.	श्रीमती रूपाली बैनर्जी सिंह	3402 चयन सूची 2006
2.	श्री सर्वेश कुमार*	3437 चयन सूची 2006

\*अधिकारी का सरकारी सेवा से त्याग-पत्र स्वीकार किए जाने के परिणामस्वरूप, उन्हें 30.09.2010 से इयूटी से कार्यमुक्त कर दिया गया है।

2. उपर्युक्त नियुक्ति, अनुमोदित सेवा के प्रयोजन हेतु संगत चयन सूची वर्ष की पहली जुलाई से प्रभावी हुई मानी जाएगी।

संजय बाजपेयी, अवर सचिव

सं. ए-20011/13/1992-प्रशा.--राष्ट्रपति ने श्री भारत भूषण, अनुभाग अधिकारी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31.10.2010 के (अपराहन) से सरकारी सेवा से निवृत्त होने की अनुमति दी है।

संजय बाजपेयी, अवर सचिव

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय  
नई दिल्ली-110003, दिनांक 3 सितम्बर 2010

सं. म.वि.वि./11/09/2001-स्था.--सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति की स्वीकृति के परिणामस्वरूप पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सम्बद्ध कार्यालय सीएमएलआरई, कोच्चि के श्री जवाहर के. के., फिशिंग गियर टेक्नीशियन 01 अगस्त, 2010 के अपराहन से सरकारी सेवा से स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

कृष्ण कुमार, अवर सचिव

सं. पृविमं/11/08/2008-स्था.--अधिवर्षिता की आयु होने के परिणामस्वरूप डॉ. ए. के. बोहरा, वैज्ञानिक 'जी', 31 अगस्त, 2010 (अपराहन) से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

कृष्ण कुमार, अवर सचिव

सं. मवि.वि./44-स्था./25/92--अधिवर्षिता की आयु होने के परिणामस्वरूप श्री टी. वी. पी. भास्कर राव, वैज्ञानिक 'जी', 31 अगस्त, 2010 (अपराहन) से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

कृष्ण कुमार, अवर सचिव

दिनांक 13 अक्टूबर 2010

सं. पृविमं/11/9/2007-स्था.--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 21.09.2010 के कार्यालय आदेश सं. 3/4/2010-सी.एस.-I(डी) के अनुसरण में और सीएसएस की वर्ष 2010 की वरिष्ठ चयन ग्रेड (निदेशक) की पूरक चयन सूची में नाम शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप सीएसएस ग्रेड के उप सचिव, श्री आर. एस. केम को 22.09.2010 (पूर्वाहन) से एतद्द्वारा पे बैंड-4, 37,400--67,000/- रु. + ग्रेड पे 8,700/- रु. में निदेशक (वरिष्ठ चयन ग्रेड) के रूप में नियुक्त किया जाता है।

कृष्ण कुमार, अवर सचिव

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय  
(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 1 नवम्बर 2010

सं. ए-38016/7/2010-स्था.-III--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में तैनात अधीनस्थ सांख्यिकीय सेवा के समूह "ख" राजपत्रित अधिकारी श्री दयानंद यादव, वरिष्ठ सांख्यिकीय अधिकारी दिनांक 31.10.2010 के अपराहन से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

राजेन्द्र सिंह, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय  
(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 28 अक्टूबर 2010

सं. 4-3/2009-विस्तार--राष्ट्रपति डॉ. शैलेश कुमार मिश्रा को विस्तार निदेशालय, सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित में पे बैंड-3 (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 6,600/- (ग्रेड पे) में 30 सितम्बर, 2010 के पूर्वाहन से नियुक्त करते हैं।

आर. एस. वर्मा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 2 नवम्बर 2010

सं. ए-19012/7/2008-आ.प्र.--राष्ट्रपति श्री उत्पल घोष, भारतीय आर्थिक सेवा के प्रशासनिक ग्रेड (एन. एफ. एस. जी.) स्तर के एक अधिकारी को अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग में 67,000--79,000/- रुपये के वेतनमान में अर्थ एवं सांख्यिकी सलाहकार के पद पर 23 जुलाई, 2010 के पूर्वाहन से नियुक्त करते हैं।

ए. के. अरोडा, अवर सचिव

पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 28 अक्टूबर 2010

सं. ए-19011/15/2010-प्रशासन-I--राष्ट्रपति, श्री बी. विष्णु भट्ट, संयुक्त निदेशक, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार को 37,400--67,000/- रु. + 8,700/- रु. (ग्रेड पे) में 27 अक्टूबर, 2010 पूर्वाहन से प्रतिनियुक्ति के आधार पर पांच वर्ष की अवधि के लिए या अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने या आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग में मात्स्यिकी विकास आयुक्त नियुक्त करती है।

सुभाष चन्द्र खत्री, अवर सचिव

दिनांक 29 अक्टूबर 2010

सं. ए-15012/7/2010-प्रशासन-1--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के बाद, इस विभाग की सुश्री अंबिका चांगरानी, प्रधान निजी सचिव को दिनांक 31 अक्टूबर, 2010 के अपराहन से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

सुभाष चन्द्र खत्री, अवर सचिव

## सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

नई दिल्ली-1, दिनांक 11 अक्टूबर 2010

सं. ए-32013/02/2007-स्थापना--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25.08.2009 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/16/2007-सीएस-1 के तहत केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) का 2003 की चसन सूची में नाम शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप श्री एन. कृष्ण पिल्लै (सीएसएल नं. 4428) (जिन्होंने इस मंत्रालय में दिनांक 08.10.2007 को तदर्थ अवर सचिव के रूप में कार्यभार संभाला तथा जिन्हें 08.11.2007 की अपराह्न को इस मंत्रालय से कार्य भार मुक्त कर दिया गया ताकि वे ऋण वसूली अधिकरण-I, मुम्बई में प्रतिनियुक्त पर सहायक रजिस्ट्रार के रूप में कार्यभार संभाल सकें तथा इस समय भी उक्त अधिकरण में कार्य कर रहे हैं) को इस मंत्रालय में सीएसएस के ग्रेड-I (अवर सचिव) में नियमित आधार पर 01.07.2003 की पूर्वाह्न से नियुक्त करते हैं।

विनोद कुमार शर्मा, अवर सचिव

## जनजातीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 29 अक्टूबर 2010

सं. 19011/1/2003-स्था.--जनजातीय कार्य मंत्रालय में अनुसंधान अधिकारी, श्री एन. एस. तोमर, अपनी अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर 31.10.2010 के अपराह्न को सरकारी सेवा से अधिवर्षिता पर सेवा निवृत्त हो रहे हैं।

असित कुमार साहा, अवर सचिव

## संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 7 अक्टूबर 2010

सं. 2(13)/2010-कार्मिक-I--सेमीकंडक्टर एकीकृत परिपथ लेआउट डिज़ाइन अधिनियम, 2000 (2000 का 37) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा श्री सुनील अलग, वैज्ञानिक 'एफ', सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को उक्त अधिनियम के प्रयोजन से अगला आदेश होने तक सेमीकंडक्टर एकीकृत परिपथ लेआउट डिज़ाइन रजिस्ट्री के रजिस्ट्रार के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपती हैं।

राजकुमार मनचन्दा, संयुक्त निदेशक

दिनांक 21 अक्टूबर 2010

सं. 2(8)/2010-कार्मिक-I--सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने श्री आई. जोसफ मनोहरन, तकनीकी अधिकारी, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को दिनांक 12.10.2010 से 5,400/- रुपए के ग्रेड वेतन सहित 15,600--39,100/- रुपए के वेतन बैंड-3 में राज्य मंत्री (संचार और सूचना प्रौद्योगिकी)-एमओएस (पी) के निजी स्टाफ में प्रतिनियुक्ति आधार पर सहायक निजी सचिव नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति राज्य मंत्री (संचार और सूचना प्रौद्योगिकी) का कार्यकाल पूरा

होने के साथ अथवा जब तक माननीय मंत्री द्वारा उनकी सेवाएं अपेक्षित हैं, इनमें से जो भी पहले हो, समाप्त हो जाएगी।

राजकुमार मनचन्दा, संयुक्त निदेशक

दिनांक 29 अक्टूबर 2010

सं. 4(861)/2010-कार्मिक-I--सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी (इन-सीटू/वैयक्तिक), श्री जगबीर सिंह, (कर्मचारी कोड सं. 350) अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31.10.2010 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

राजकुमार मनचन्दा, संयुक्त निदेशक

## राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र

नई दिल्ली-110003, दिनांक 2 नवम्बर 2010

सं. 6242/एनआईसी/2010-प्रशा.-II--महानिदेशक, राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र एतद्वारा श्री क्षितिज चौधरी, (कर्मचारी कोड सं. 6242) का राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र पंजाब राज्य एकक, चंडीगढ़ से वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड एस बी, के पद से त्यागपत्र दिनांक 6 अक्टूबर, 2010 की अपराह्न से स्वीकार करते हैं और उन्हें उसी दिन से सेवा से कार्यमुक्त किया जाता है।

सुभाष दत्ता, उप निदेशक (प्रशा.-II)

## डाक विभाग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 8 सितम्बर 2010

सं. 2-1/2008-प्रशासन--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का. ज्ञा. सं. 6/6/2009-सीएस.आई(एस) दिनांक 07.06.2010 के क्रम में राष्ट्रपति, डाक विभाग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायकों, श्री एस. के. दास और श्री ए. के. नंदी को, उसी विभाग में अनुभाग अधिकारी के पद पर 01.09.2010 से वेतन बैंड-2 में 9,300--34,800/- रु. + 4,800/- रु. (ग्रेड वेतन) में अनुभाग अधिकारी के रूप में 31.12.2010 तक अथवा जब तक नियमित अधिकारी उपलब्ध हों अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए सहर्ष तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

2. उपरोक्त नियुक्ति अधिकारी को ग्रेड में अनिश्चित अवधि तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए अनुभाग अधिकारी की चयन सूची में शामिल होने या सीएसएस के अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने के लिए कोई अधिकार नहीं प्रदान करेगी।

भगवान दास, सहायक महानिदेशक (प्रशासन)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 28 अक्टूबर 2010

सं. 13-9/2010-एसपीजी-I--सुश्री एम. इवानफिनाओ (आईपीओ-1981), पोस्टमास्टर जनरल, शिलांग, पूर्वोत्तर सर्किल अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 31.10.2010 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएगी।

बी. पी. पंत, सहायक महानिदेशक (एसजीपी)

रेल मंत्रालय  
(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 29 अक्टूबर 2010

सं. ई(जी.पी.)2007/3/2--राष्ट्रपति महोदय, भारतीय रेलों के सिविल इंजीनियरी विभाग के निम्नलिखित 7 ग्रुप 'बी' अधिकारियों की उल्लिखित रेलों पर 21.04.2009 से भारतीय रेल सिविल इंजीनियरी (आई.आर.एस.ई.) सेवा के ग्रुप-ए/कनिष्ठ वेतनमान में नियुक्ति किये जाने का अनुमोदन करते हैं :--

2007-08 के लिए पैनल

अधिकारियों के नाम

उत्तर पश्चिम रेलवे

श्री आर. एम. मीना (अ.ज.जा.) (अ.ज.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)

2008-09 के लिए पैनल

पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे

सर्वश्री

1. प्रद्युत कुमार दास (अ.जा.) (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)

2. आर. के. दास (अ.जा.) (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)

उत्तर रेलवे

श्री मोहिन्दर कुमार

उत्तर पश्चिम रेलवे

श्री अरूण कुमार महिन्दु

दक्षिण पूर्व रेलवे

श्री ए. जी. एस. राव

पश्चिम रेलवे

श्री अजीत कुमार जैन

2. इसके अलावा, दिनांक 08.06.2009 की समसंख्यक अधिसूचना में आंशिक आशोधन करते हुए श्री जे. एस. राठौर की 2007-08 के पैनल में उत्तर पश्चिम रेलवे पर भारतीय रेल इंजीनियरी सेवा के कनिष्ठ वेतनमान की नियुक्ति को अनुसूचित जन जाति की रिक्ति के स्थान पर सामान्य माना जाए।

वी. के. गुप्ता, सचिव  
(रेलवे बोर्ड)

सं. ई(जी.पी.)2007/3/2--दिनांक 08.06.2009 की समसंख्यक अधिसूचना में आंशिक आशोधन करते हुए श्री संजय त्यागी की भारतीय रेल सिविल इंजीनियरी सेवा (आई.आर.एस.ई.) के कनिष्ठ वेतनमान में 2008-09 पैनल में पश्चिम रेलवे पर नियुक्ति को रद्द समझा जाए।

वी. के. गुप्ता, सचिव  
(रेलवे बोर्ड)

सं. ईआरबी-1/2008/2/26--राष्ट्रपति जी, श्रीमती सुहास कुमार, वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड/भारतीय रेल यातायात सेवा, वरिष्ठ उप महाप्रबंधक/उत्तर रेलवे की रु. 67,000--79,000/- के वेतनमान में उच्च प्रशासनिक ग्रेड में पदोन्नति होने पर उन्हें 20.09.2010 के पूर्वाह्न से सलाहकार (मालभाड़ा विपणन), रेलवे बोर्ड के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. के. गुप्ता, सचिव  
(रेलवे बोर्ड)

सं. ईआरबी-1/2010/2/57--राष्ट्रपति जी, श्री वी. एन. त्रिपाठी, भारतीय रेल यातायात सेवा, महाप्रबंधक, पूर्व रेलवे को 16.09.2010 के अपराह्न से सदस्य (कार्मिक), रेलवे बोर्ड एवं भारत सरकार के पदेन सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. के. गुप्ता, सचिव  
(रेलवे बोर्ड)

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 19 अक्टूबर 2010

सं. ए-32014/2/2010-ई-1 (बी)--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30.06.2010 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 5/21/2010-सीएस-II के अनुसरण में राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सीएसएसएस) की श्रीमती फूल रानी आशुलिपिक ग्रेड 'सी' को 9,300--34,800/- रु. के पे बैंड-2 + 4,800/- रु. के ग्रेड में 16.09.2010 (पूर्वाह्न) से 31.12.2010 तक अथवा नियमित आशुलिपिक ग्रेड 'ए' और 'बी' (विलयित) के उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, तब तक के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में तदर्थ आधार पर निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

एच. आर. मीणा, अवर सचिव

दिनांक 27 अक्टूबर 2010

सं. ए-12033/1/2010-ई-1--राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के सचिवालय, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 21.09.2010 के आदेश सं. 1/11/2010-ईओ (एसएम-1) के अनुसरण में, श्री राघव चन्द्र, भा.प्र.से. (मध्य प्रदेश : 82) को 37,400--67,000/- रुपए (पीबी-4) के पे बैंड तथा 10,000/- रुपए के ग्रेड पे में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर दिनांक 05.10.2010 (अपराह्न) से पाँच वर्ष की अवधि तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

एच. आर. मीणा, अवर सचिव

श्रम और रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 2 नवम्बर 2010

सं. 351/2010 (फा.सं. ए-38012/1/2010-प्रशा.-1)--अधिवर्षिता की आयु का हो जाने के उपरान्त, श्री राजा लाल, श्रम और रोजगार मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के वरिष्ठ चयन ग्रेड (निदेशक-एस. एल.- 2010) 31.10.2010 से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

प्रदीप गौड़, अवर सचिव



## VICE-PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 29th October 2010

No. 03/04/79-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Pawan Singh Bisht as Section Officer in the PB-2 (Rs. 9,300—34,800/-) + Grade Pay Rs. 4,800/- w.e.f. 27th October, 2010 (F/N) until further orders.

ASHOK DEWAN, Dir.

## RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 1st November 2010

No. RS/20/1/2010/103-Perl.—On attaining the age of superannuation, Shri Sajjan Kumar Chhugani, Joint Director retired from service with effect from the afternoon of 31st October, 2010.

S. RANGARAJAN, Dy. Dir.

No. RS/20/1/2010/104-Perl.—On attaining the age of superannuation, Shri B. K. Pant, Joint Director (PSS) retired from service with effect from the afternoon of 31st October, 2010.

S. RANGARAJAN, Dy. Dir.

No. RS/3/1/2010/107-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri Sanjeev Chandra, Assistant Director in the Rajya Sabha Secretariat to officiate in the grade of Deputy Director in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 7,600/- plus usual allowances as admissible under the rules, on regular basis in that Secretariat with effect from the forenoon of 01st November 2010 and until further orders.

2. The above appointment would be subject to the orders of the Delhi High Court at the time of final disposal of Writ Petition No. 3025/88.

S. RANGARAJAN, Dy. Dir.

## CABINET SECRETARIAT

New Delhi, the 29th September 2010

No. A-19011/04/2010-Ad-I.—The President is pleased to appoint Shri K.V.S. Rao, an officer of the Selection Grade (Deputy Secretary) of CSS in Cabinet Secretariat as Director in the Senior Selection Grade of Central Secretariat Service on regular basis with effect from 21st September 2010 (FN), consequent upon inclusion of his name in the Senior Selection Grade (Director) Supplementary Select List of CSS for the year 2010 vide Department of Personnel and Training Office Order No. 3/4/2010-CS.I(D) dated 21st September, 2010.

2. Shri Rao continue to be posted in Cabinet Secretariat.

K. J. SIBICHAN, Under Secy.

The 11th October 2010

No. A-19012/03/2010-Ad-I.—The President is pleased to appoint Shri Diwakar Nath Misra, IAS(AM-2000) as Deputy Secretary in the Cabinet Secretariat on Central deputation for a period of four years with effect from the afternoon of 04th October, 2010 or until further orders, whichever event takes place earlier.

K. J. SIBICHAN, Under Secy.

## PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 28th October 2010

No. F.6(2082)/2009-Adm. I.—In pursuance of Department of Economic Affairs, Order No. T-21/2010 dated 15.07.2010 issued from their File No. 13016/3/2010-IES, Shri T. V. Bhavadas, NFSG officer of IES and Director, Planning Commission will stand relieved from Planning Commission w.e.f. 29.10.2010 (AN) to join Regional Evaluation Office of Programme Evaluation Organisation (Planning Commission), Mumbai.

G. RAJEEV, Under Secy.

No. F.6(2126)/2010-Adm. I.—On attaining the age of superannuation, Shri R. C. Srinivasan, IES, Principal Adviser, Planning Commission retires from Government Service with effect from the afternoon of 31st October, 2010.

G. RAJEEV, Under Secy.

## MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

## (LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, the 15th October 2010

No. A-12025/1/2007-Admn. I(L.D.)—Shri K. V. Kumar, Assistant Legislative Counsel who was appointed to the post of Deputy Legislative Counsel (Grade-III of Indian Legal Service) on *ad hoc* basis in the Legislative Department, Ministry of Law and Justice with effect from the forenoon of 20th April, 2010 *vide* this Department's Notification of even number dated 22nd July, 2010 stands reverted to his substantive post of Assistant Legislative Counsel with effect from the forenoon of 11th October, 2010.

M. R. BEERH, Dy. Secy.

New Delhi, the 20th October 2010

No. A-12025(i)/1/2007-Admn. I(L.D.)—Shri N. R. Battu, Deputy Legislative Counsel who was appointed to officiate as Additional Legislative Counsel (Grade-II of ILS) on *ad-hoc* basis in this Department *vide* Notification dated 21st July, 2010 stands reverted to the post of Deputy Legislative Counsel with effect from the afternoon of 20th October 2010.

V. G. MANGAL, Under Secy.

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-110001, the 28th October 2010

No. 14046/16/2010-UTS-II.—The Joint Secretary (Union Territories) in the Ministry of Home Affairs, the Appointing Authority in respect of Entry Grade Officers of the NCT of Delhi, Andaman & Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli Police Service (DANIPS) has accepted the notice of Voluntary Retirement dated 17th May, 2010 of Smt. Shashi Bala Punj (Date of Birth : 14.03.1952), Entry Grade Officer of DANIPS and permitted her to retire Voluntarily under rule 48(1) of the CCS (Pension) Rules, 1972, with immediate effect.

VYOMESH PANT, Section Officer

MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH  
EASTERN REGION

New Delhi-110011, the 1st November 2010

No. 13/90/10-Admn.—The President is pleased to appoint Shri D. Roychowdhury as Executive Engineer (C) in the Ministry of Development of North Eastern Region with effect from the forenoon of 18.10.2010.

ASHOLI CHALAI, Dir.

MINISTRY OF PERSONNEL, P.G. AND PENSIONS  
(DEPARTMENT OF PENSION AND PENSIONER'S  
WELFARE)

New Delhi, the 25th October 2010

No. 19011/6/2010-Admn. I.—Consequent upon promotion on adhoc basis to the post of Under Secretary (Grade-I) vide Department of Personnel & Training's Order No. 5/3/2010-CSI(U) dated 03rd September, 2010, The President is pleased to appoint Shri Darshan Kumar Solanki, CSS as Under Secretary (ad-hoc) in the Department of Pension & Pensioner's Welfare with effect from the afternoon of 09th September, 2010.

V. K. WADHWA, Under Secy.

The 2nd November 2010

No. 19011/4/2007-Admn. I.—Consequent upon inclusion of his name in the Sr. Selection Grade (Director) Select List of CSS for the year 2010, the President is pleased to appoint Shri Karan Singh Chibb, CSS as Director in the Pay Band-4 (PB-4) of Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay of Rs. 8,700/- in the Department of Pension & Pensioner's Welfare with effect from the forenoon of 21st September, 2010.

V. K. WADHWA, Head of Office/Under Secy.

DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE REFORMS &  
PUBLIC GRIEVANCES

New Delhi-110001, the 20th October 2010

No. A-19014/07/2010-AR (Ad.I)—The President is pleased to appoint Shri Hemant Verma as Under Secretary on adhoc basis in the Department of Administrative Reforms & Public Grievances with effect from the forenoon of 20.09.2010 and until further orders.

B. K. SINGH, Under Secy.

No. A-19014/08/2010-AR (Ad. I)—The President is pleased to appoint Shri S. K. Pani as Under Secretary on ad-hoc basis in the Department of Administrative Reforms & Public Grievances with effect from the afternoon of 09.09.2010 and until further orders.

B. K. SINGH, Under Secy.

No. A-19014/05/2010-AR (Ad. I)—The President is pleased to appoint Ms. Sunita Saxena as Under Secretary on ad-hoc basis in the Department of Administrative Reforms & Public Grievances with effect from the forenoon of 09.09.2010 and until further orders.

B. K. SINGH, Under Secy.

No. A-19014/06/2010-AR (Ad. I)—The President is pleased to appoint Shri Vadali Rambabu as Under Secretary on adhoc basis in the Department of Administrative Reforms & Public Grievances with effect from the forenoon of 09.09.2010, until further orders.

B. K. SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF FINANCE  
(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 23rd September 2010

No. 91 : (F. No. A-19012/03/2008-Ad. I)—Consequent upon inclusion of his name in the Senior Selection Grade (Director) Supplementary Select List of CSS for the year 2010 and in pursuance of the Department of Personnel and Training's Office Order No. 3/4/2010-CS-I(D) dated 21st September, 2010, the President is pleased to appoint Shri K. M. Brahme, an officer belonging to CSS and presently working as Deputy Secretary, as Director in this Department on regular basis w.e.f. 22.09.2010 (FN) and until further orders.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

No. 92 : (F. No. A-19012/03/2007-Ad. I)—Consequent upon inclusion of his name in the Senior Selection Grade

(Director) Supplementary Select List of CSS for the year 2010 and in pursuance of the Department of Personnel and Training's Office Order No. 3/4/2010-CS-I(D) dated 21st September, 2010, the President is pleased to appoint Shri Raveesh Sanehwal, an officer belonging to CSS and presently working as Deputy Secretary, as Director in this Department on regular basis w.e.f. 22.09.2010 (FN) and until further orders.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

No. 93. (F.No. A-19012/10/2007-Ad.I)—Consequent upon inclusion of his name in the Senior Selection Grade (Director) Supplementary Select List of CSS for the year 2010 and in pursuance of the Department of Personnel and Training's Office Order No. 3/4/2010-CS-I(D) dated 21st September, 2010, the President is pleased to appoint Shri L.R. Aggarwal, an officer belonging to CSS and presently working as Deputy Secretary, as Director in this Department on regular basis w.e.f. 21.09.2010 (FN) and until further orders.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

The 1st October 2010

No. 95. (F.No. A-38013/13/2010-Ad.I)—Smt. Manjit N.P.S. Bedi, an officer of the Central Secretariat Service, posted as Section Officer in the Department of Revenue, retired from Government Service on 30th September, 2010 (AN) on attaining the age of superannuation.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

The 4th October 2010

No. 96. (F.No. A-38013/15/2007-Ad.I)—Shri Parmod Kumar Misra, an officer of the Central Secretariat Service, posted as Section Officer in the Department of Revenue, retired from Government Service on 30th September, 2010 (AN) on attaining the age of superannuation.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

The 6th October 2010

No. 97. (F.No. A-19012/14/2010-Ad.I)—Consequent upon inclusion of his name in the Selection Grade (Deputy Secretary) Select List of CSS for the year 2010 (Part) and in pursuance of the Department of Personnel and Training's Office Order No. 4/2/2010-CS-I(D) dated 6th September, 2010, the President is pleased to appoint Shri Anil Uniyal, an officer belonging to CSS, as Deputy Secretary in this Department on regular basis w.e.f. 09.09.2010 (AN) and until further orders.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

New Delhi, the 25th October 2010

### INDIAN CUSTOMS & CENTRAL EXCISE ESTABLISHMENT

No. 41 of 2010 (F.No. A-38012/24/2010--Ad.II)—The President is pleased to accept the notice for Voluntary Retirement in respect of the following officers from the Government Service under Rule 48 of CCS (Pension) Rules, 1972 with effect from the dates mentioned against their names:—

S.No.	Name of the Officer	Date of Voluntary Retirement
	S/Shri	
1.	G.V. Naik	28.10.2010 (AN)
2.	A.P. Verma	27.10.2010 (AN)
3.	R.K. Jain	26.10.2010 (AN)
4.	M.K. Gupta	28.10.2010 (AN)

R. SANEHWAL, Director

### CENTRAL BOARD OF EXCISE & CUSTOMS

The 26th October 2010

No. 42 of 2010 (F.No. A-38012/17/2008-Ad.II)—The President is pleased to accept the notice for Voluntary Retirement of Shri Gopal Singh Purohit (IRS : C&CE : 1996), Deputy Commissioner, Directorate of Publicity & Public Relations, Customs & Central Excise, New Delhi from the Government Service with effect from 12.05.2009 (FN) under FR 56(k).

R. SANEHWAL, Director

No. 43 of 2010 (F.No. A. 38012/23/2010-Ad.II)—The President is pleased to accept the notice for Voluntary Retirement of Shri Satish Chandra Tiwari, Assistant Commissioner of Customs, Jaipur from Government Service with effect from 28.10.2010 (FN) under FR 56(k).

R. SANEHWAL, Director

No. 44 of 2010 (F.No.A.-39012/08/2010-Ad.II)—The President is pleased to accept the technical resignation tendered by Ms. Saswati Dey, S/Shri Mohammed Yusuf Qureshi, Nirlipt Rai, Kaushlendra Vikram Singh and Chandra Shekhar Singh, Probationers of 61st batch of (IRS : C&CE) from Indian Revenue Service (Customs and Central Excise) w.e.f. 29.08.2010 (AN).

R. SANEHWAL, Director

## DEPARTMENT OF EXPENDITURE

New Delhi, the 29th October 2010

No. PFG(2226)Admn.I/2010—Shri D.D. Tewari, Joint Director (OL) of CSS (OL) Cadre of Ministry of Finance, Department of Expenditure stands retired on attaining the age of superannuation from Government Service with effect from the afternoon of the 31st October, 2010.

2. His name will be struck off from the rolls of this Department from that date.

S. KRISHNAMOORTHY, Under Secy.

## MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

New Delhi-110001, the 29th October 2010

No. PFG(986)/10-Ad.I—The President is pleased to appoint Shri Kamala Kanta Nath, ISS (2000) as Deputy Secretary in the Ministry of Corporate Affairs for a period of four years with effect from the forenoon of 28th October, 2010 upto 27th October, 2014 or until further orders, whichever events takes place earlier.

J.S. GUPTA, Under Secy.

## MINISTRY OF COMMERCE &amp; INDUSTRY

(DEPARTMENT OF COMMERCE)

New Delhi, the 2nd November 2010

No. A-12022/2/2006-E.IV—The President is pleased to appoint Shri G. Kamala Vardhana Rao, IAS(KL:90) as Chairman, Tobacco Board at Guntur (Joint Secretary level) under the Department of Commerce, in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- (PB-4) plus Grade Pay of Rs. 10,000/- with effect from the forenoon of 20.09.2010 for a period upto 30.09.2012 or until further orders, whichever event takes place earlier.

K.K. PHULL, Under Secy.

## DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION

New Delhi-110107, the 29th October 2010

No. A-12023/1/2010-E.I—The President is pleased to appoint Ms. Deepa Upadhyay, a Regular Senior Translator in the cadre of Department of Official Language, as Assistant Director (Official Language) in the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry on ad-hoc basis in the pay structure PB-3 with Grade Pay of Rs. 5,400/- for a period of one year w.e.f. 26.10.2010 or till regular Assistant Director (Official Language) becomes available for posting or until further orders, whichever is the earliest.

2. The above appointment has been ordered purely on ad hoc basis and will not confer any right on the officer to

continue indefinitely or for seniority in the grade or for promotion to the higher grade etc.

P. BHARDWAJ, Under Secy.

No. A-45011/2/2010-E.I.—In pursuance to Department of Personnel and Training's OM No.5/21/2010-CS.II dated 30.06.2010, the President is pleased to appoint the following regular Stenographers Grade 'C' of the Central Stenographer Secretariat Service as Stenographer Grade 'A&B' (merged) (Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay Rs. 4,800/-) in the cadre of Department of Industrial Policy and Promotion, for the period upto 31.12.2010 on ad hoc basis or till the posts are filled up on regular basis, or until further orders, whichever is earlier, with effect from the dates shown against their names:—

S. No.	S.No. in DOPT OM	Name	Date of appointment as PS (Ad hoc)	Posting
1.	39	Smt. Surinder Jeet Kaur Anand	01.10.2010(FN)	Department of Public Enterprises
2.	73	Shri K.E. Mohanan	24.08.2010(FN)	DIPP

The promotion of the officers to the grade of Stenographer Grade 'A&B' (merged) have been made purely on ad hoc basis and shall not confer on them any right to continue in the grade indefinitely or claim seniority in the grade of Stenographer Grade 'A&B' (merged).

P. BHARDWAJ, Under Secy.

No. A-19012/1055/1997-E.I.—On attaining the age of superannuation, Shri S.C. Saxena, a regular Section Officer of Central Secretariat Service (CSS) (SL-2003), in the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, shall stand retired from Government Service, with effect from the afternoon of 31st October, 2010.

P. BHARDWAJ, Under Secy.

No. A-19012/1247/2007-E.I.—On attaining the age of superannuation, Shri Jugal Kishore, (Assistant CSL No : 200/1992) officiating as Section Officer in the (CSS) cadre of Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, shall stand retired from Government service, with effect from the afternoon of 31st October 2010.

P. BHARDWAJ, Under Secy.

## MINISTRY OF TEXTILES

New Delhi, the 12th October 2010

No. 21/2010 (A-I/1/2008-NIFT-Sec.(Pt.))—Shri Rajiv Takru, IAS (GJ:79), stands relieved from the post of Director

General, National Institute of Fashion Technology, Ministry of Textiles with effect from the forenoon of 13th October, 2010, consequent on his appointment as Additional Secretary in the Ministry of Information & Broadcasting, New Delhi.

INDERJIT SINGH, Dir.

New Delhi, the 8th June 2010

No. 13/2010 (A-12022/10/2009-Estt.)—The President is pleased to appoint Shri K.K. Mohanadas, Section Officer of the cadre of Ministry of Defence, to the Grade I (Under Secretary) of CSS on adhoc basis in the Ministry of Textiles w.e.f. 3rd June, 2010 (AN) in pursuance of Department of Personnel and Training's Order No. 5/3/2010-CS.I(U) dated 26th May, 2010.

BALBIR SINGH, Under Secy.

New Delhi, the 3rd November 2010

No. 4/10/2010-Jute—The President is pleased to appoint Smt. Arti Kanwar, IAS (GJ : 2001) as Deputy Jute Commissioner in the Office of the Jute Commissioner, Kolkata at the level of Deputy Secretary w.e.f. the forenoon 28th September, 2010 for a period of four years or until further orders, whichever is earlier.

BRIJ KUMAR, Under Secy.

#### MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

New Delhi-110049, the 29th October 2010

No. A-42013/1/2000-Admn.—Consequent upon inclusion of their names in the Select Lists for the Years 2006 of the Officers of the Central Secretariat Service (CSS) for appointment to Selection Grade (Deputy Secretary) of the service vide Department of Personnel & Training's OM No. 4/9/2008-CS. I (D) dated 30.01.2009 and in terms of DOP&T's OM No. 4/12/2001-CS. I (D) dated 13.02.2009, the President is pleased to appoint the following CSS officers of this Ministry, as Deputy Secretary on regular basis as per details given below :—

Sl. No.	Name	CSL No. & Select List Year
1.	Smt. Rupali Banerjee Singh	3402 Select List 2006
2.	Shri Sarvesh Kumar*	3437 Select List 2006

\*The Officer has been relieved of his duties w.e.f. 30.09.2010 consequent upon acceptance of resignation from Government service tendered by him.

The above appointment will be deemed to have been made effective with effect from the 1st July of the corresponding Select List Year, for the purpose of approved service.

SANJAI BAJPAI, Under Secy.

No. A-20011/13/1992-Admn.—The President is pleased to permit Shri Bharat Bhushan, Section Officer, Ministry of Food Processing Industries to retire from Government Service with effect from the afternoon of 31.10.2010 (A/N) on his attaining the age of superannuation.

SANJAI BAJPAI, Under Secy.

#### MINISTRY OF EARTH SCIENCES

New Delhi-110003, the 3rd September 2010

No. DoD/11/09/2001-Estt.—Consequent upon the acceptance of his voluntary retirement by the competent authority, Shri Jawhar K. K., Fishing Gear Technician, CMLRE, Kochi, an attached office of Ministry of Earth Sciences, retired voluntarily from Government Service from the forenoon of 1st August, 2010.

KRISHAN KUMAR, Under Secy.

No. MOES/11/08/2008-Estt.—Consequent upon his attaining the age of superannuation, Dr. A. K. Bohra, Scientist 'G' retired from Government Service from the afternoon of 31st August, 2010.

KRISHAN KUMAR, Under Secy.

No. DoD/44-Estt./25/92—Consequent upon his attaining the age of superannuation, Shri T. V. P. Bhaskara Rao, Scientist 'G' retired from Government Service from the afternoon of 31st August, 2010.

KRISHAN KUMAR, Under Secy.

The 13th October 2010

No. MoES/11/09/2007-Estt.—In pursuance of DoP&T's Office Order No. 3/4/2010-CS.I (D), dated 21.9.2010 and consequent upon inclusion of his name in the Senior Selection Grade (Director) Supplementary Select List of CSS for the year 2010, Sh. R. S. Kaim, Dy. Secretary of CSS Cadre is hereby appointed as Director (Senior Selection Grade) in PB-4, Rs. 37,400—67,000/- Grade Pay Rs. 8,700/- w.e.f. 22.9.2010 (F/N).

KRISHAN KUMAR, Under Secy.

#### MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

(DEPARTMENT OF HEALTH & FAMILY WELFARE)

New Delhi, the 1st November 2010

No. A-38016/7/2010-Estt. III—On attaining the age of superannuation, Sh. Daya Nand Yadav, Sr. Statistical Officer a Group 'B' Gazetted Officer of Subordinate Statistical Service posted in the Department of Health and Family

Welfare, Ministry of Health & Family Welfare has retired from Government Service w.e.f. 31.10.2010 (AN).

RAJENDRA SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE  
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE &  
COOPERATION)

New Delhi, the 28th October 2010

No. 4-3/2009-Extn.—The President is pleased to appoint Dr. Shailesh Kumar Mishra to the post of Joint Director (Extension) in the Dte. of Extension, General Central Service, Group-A Gazetted in the Pay Band-3 (Rs. 15,600—39,100/- + Grade pay of Rs. 6,600/- w.e.f. the forenoon of 30th September, 2010 on direct recruitment basis.

R. S. VERMA, Under Secy.

New Delhi, the 2nd November 2010

No. A-19012/6/2010-EA.—The President is pleased to appoint Shri Utpaul Ghosh, a Non-Functional Higher Administrative Grade Officer of Indian Economic Service, to the post of Economic & Statistical Adviser, Directorate of Economics & Statistics, in the Department of Agriculture and Cooperation, in the pay scale of Rs. 67,000—79,000/- with effect from the forenoon of 23rd July, 2010.

A. K. ARORA, Under Secy.

DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY,  
DAIRYING AND FISHERIES

New Delhi, the 28th October 2010

No. A-19011/15/2010-Admn. I.—The President is pleased to appoint Shri B. Vishnu Bhat, Joint Director, Marine Products Export Development Authority, Ministry of Commerce and Industry, Government of India as Fishery Development Commissioner in the scale of pay of Rs. 37,400—67,000/- + 8,700/- (GP) in the Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries w.e.f. the forenoon of 27th October, 2010 on deputation basis for a period of five years or till he attains the age of superannuation or until further orders, whichever is the earliest.

SUBHASH CHAND KHATRI, Under Secy.

The 29th October 2010

No. A-15012/7/2010-Admn. I.—Consequent upon attaining the age of superannuation, Ms. Ambika Changrani, Principal Private Secretary in this Department retires from Government Service with effect from the afternoon of 31st October, 2010.

SUBHASH CHAND KHATRI, Under Secy.

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND  
EMPOWERMENT

New Delhi-110001, the 11th October 2010

No. A-32013/02/2007-Estt.—Consequent upon his inclusion in the Select List of 2003 for Grade-I (Under Secretary) of Central Secretariat Service (CSS), vide the Department of Personnel and Training's OM No. 5/16/2007-CS.I dated 25.08.2009, the President is pleased to appoint Shri N. Krishna Pillai (CSL No. 4428) (who joined this Ministry as ad-hoc Under Secretary on 8.10.2007 and was relieved from this Ministry w.e.f. the afternoon of 8.11.2007 to enable him to join Debts Recovery Tribunal-I, Mumbai, as Assistant Registrar on deputation, and is presently continuing in the said Tribunal) to the Grade-I (Under Secretary) of CSS in this Ministry, on regular basis, w.e.f. the forenoon of 01.07.2003.

VINOD KUMAR SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

New Delhi, the 29th October 2010

No. 19011/1/2003-Estt.—On attaining the age of superannuation Shri N. S. Tomar, Research Officer in the Ministry of Tribal Affairs retires from the Government Service on superannuation with effect from the afternoon of 31.10.2010.

A. K. SAHA, Under Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATION AND  
INFORMATION TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY)

New Delhi-110003, the 7th October 2010

No. 2(13)/2010-Pers. I.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 3 of the Semiconductor Integrated Circuits Layout-Design Act, 2000 (37 of 2000), the Central Government hereby assigns additional charge for the post of Registrar of Semiconductor Integrated Circuits Layout-Design Registry of Shri Sunil Alag, Scientist 'F', Department of Information Technology for the purpose of the said Act till further orders.

R. K. MANCHANDA, Jt. Director

The 21st October 2010

No. 2(8)/2010-Pers. I.—Secretary, Department of Information Technology is pleased to appoint Shri I. Joseph Manoharan, Technical Officer, Telecom Regulatory Authority of India as Assistant Private Secretary in the personal staff of Minister of State (Communication & Information Technology)-MOS(P) in Pay Band-3, Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 5,400/- w.e.f. 12.10.2010 on deputation basis. His appointment is co-terminus with the tenure of

MOS (C&IT)-(P) or till his services are required by the Hon'ble Minister, whichever is earlier.

R. K. MANCHANDA, Jt. Director

The 29th October 2010

No. 4(861)/2010-Pers. I—On attaining the age of superannuation, Shri Jagbir Singh, Section Officer (in-sit/personal) (E. Code 350), Department of Information Technology, Ministry of Communications & Information Technology retires from service on 31.10.2010.

R. K. MANCHANDA, Jt. Director

#### NATIONAL INFORMATICS CENTRE

New Delhi-110003, the 1st November 2010

No. 6242/NIC/2010-Adm. II—The Director General, NIC is pleased to accept the resignation of Sh. Kshitiz Chaudhary, (Emp. Code No. 6242), from the post of Scientific Officer/Engineer Gr. SB, National Informatics Centre, Punjab State Unit, Chandigarh, with effect from the afternoon of 06.10.2010 and he is relieved of his duties from the same day.

SUBHASH DUTTA, Dy. Director (Adm. II)

#### DEPARTMENT OF POSTS

New Delhi-110001, the 8th September 2010

No. 2-1/2008-Admn.—In pursuance of Department of Personnel and Training's O.M. No. 6/6/2009-CS. I(S) dated 07.06.2010, the President is pleased to appoint Shri S. K. Das and Shri A. K. Nandy, Assistants of Central Secretariat Service of Department of Posts as Section Officer in the Same Department on ad-hoc basis upto 31.12.2010 or till regular officers become available or till further orders, whichever is earlier, in the Pay Band PB-2 Rs. 9,300—34,800/- + Rs. 4,800/- (Grade Pay) with effect from 01.09.2010.

2. The above appointment will not confer any right on the officers to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List of Section Officers for regular appointment or to claim seniority in the Section Officers grade of CSS.

BHAGWAN DASS, Asstt. Director General (Admn.)

New Delhi-110116, the 28th October 2010

No. 13-9/2010-SPG—Ms. M. Iawphniaw (IPoS-1981), Post Master General Shillong, North East circle is retiring on superannuation from Government Service w.e.f. 31.10.2010.

B. P. PANT, Asstt. Director General (SGP)

#### MINISTRY OF RAILWAYS

#### (RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 29th October 2010

No. E(GP)2007/3/2—The President is pleased to appoint the undermentioned 7 Group 'B' officers of Civil Engineering Department of Indian Railways to Group 'A'/Junior Scale of Indian Railway Service of Engineers (IRSE) with effect from 21/4/2009 on the Railways mentioned as Under:—

#### PANEL FOR 2007-2008

##### Name of the Officer

S/Shri

##### North Western Railway

1. R.M. Meena (ST) (Promoted against ST Vacancy)

#### PANEL FOR 2008-2009

##### Northeast Frontier Railway

1. Pradyut Kr. Das (SC) (Promoted against SC Vacancy)
2. R.K. Das (SC) (Promoted against SC Vacancy)

##### Northern Railway

1. Mohinder Kumar

##### North Western Railway

1. Arun Kumar Mahindru

##### South Eastern Railway

1. A.G.S. Rao

##### Western Railway

1. Ajeet Kumar Jain

2. Further, in partial modification of notification of even number dated 08.06.2009, the appointment of Shri J.S. Rathore to the Junior Scale of Indian Railway Service of Engineers (IRSE) on North Western Railway in the 2007-08 panel, may be treated against an Unreserved Vacancy in lieu of the 'ST' vacancy.

V.K. GUPTA, Secy.  
(Rly. Board)

No. E(GP)2007/3/2—In partial modification of notification of even number dated 08.06.2009, the appointment of Shri Sanjay Tyagi to the Junior Scale of Indian Railway Service of Engineers (IRSE) on Western Railway in the 2008-09 panel, may be treated as cancelled.

V.K. GUPTA, Secy.  
(Rly. Board)

No. ERB-I/2008/2/26—The President is pleased to appoint Smt. Suhas Kumar, SAG/IRTS, SDGM/Northern Railway as Adviser (Freight Marketing), Railway Board on promotion to HA Grade in the scale Rs. 67,000—79,000/- with effect from forenoon of 20.09.2010.

V.K. GUPTA, Secy.  
(Rly. Board)

No. ERB-I/2010/2/57—The President is pleased to appoint Shri V. N. Tripathi, IRTS, General Manager, Eastern Railway as Member (Staff), Railway Board and ex-officio Secretary to the Government of India with effect from afternoon of 16.09.2010.

V. K. GUPTA, Secy.  
(Rly. Board)

#### MINISTRY OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS

New Delhi, the 19th October 2010

No. A-32014/2/2010-E.I (B)—In pursuance of Deptt. of Personnel & Training's O.M. No. 5/21/2010-CS.II dated 30.06.2010, the President is pleased to appoint Smt. Phool Rani, Steno Grade 'C' of CSSS as Private Secretary on ad-hoc basis in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800 + Grade Pay of Rs. 4,800/- in the Ministry of Road Transport & Highways with effect from 16.09.2010 (FN) for the period upto 31.12.2010 or till the regular Steno

Grade 'A' & 'B' (Merged) becomes available, whichever is earlier.

H. R. MEENA, Under Secy.

The 27th October 2010

No. A-12033/1/2010-E-I—In pursuance of Secretariat of the Appointments Committee of the Cabinet. Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel & Training's Order No. 1/11/2010-EO(SM-I) dated 21.09.2010, the President is pleased to appoint Shri Raghav Chandra, IAS (MP : 82) as Joint Secretary in the Ministry of Road Transport & Highways in Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- (PB-4) + Grade Pay of Rs. 10,000/- for a period of five years w.e.f. 05.10.2010 (A.N.) or until further orders, whichever is earlier.

H. R. MEENA, Under Secy.

#### MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT

New Delhi, the 2nd November 2010

No. 351 of 2010 (F. A-38012/1/2010-Adm. I)—On attaining the age of superannuation, Shri Raja Lal, a Senior Selection Grade of CSS (Director-SL-2010) in the Ministry of Labour Employment, has retired from Government Service, with effect from 31.10.2010.

PRADEEP GAUR, Under Secy.